



Smita

25 Jun 1978

04:20 PM

Gangtok

Model: Web-MyKundli

Order No: 120949301

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: स्त्रीलिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 25/06/1978  
दिन \_\_\_\_\_: रविवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 16:20:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 29:04:42 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Gangtok  
राज्य \_\_\_\_\_: Sikkim  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 27:20:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 88:39:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: 00:24:36 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 16:44:36 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:02:26 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 10:57:30 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 04:42:07 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 18:33:38 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 13:51:32 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: दक्षिणायन  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: उत्तर  
ऋतु \_\_\_\_\_: वर्षा  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 09:58:02 मिथुन  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 11:15:55 वृश्चिक

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: वृश्चिक - मंगल  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: कुम्भ - शनि  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: शतभिषा - 3  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: राहु  
योग \_\_\_\_\_: प्रीति  
करण \_\_\_\_\_: गर  
गण \_\_\_\_\_: राक्षस  
योनि \_\_\_\_\_: अश्व  
नाड़ी \_\_\_\_\_: आद्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: शूद्र  
वश्य \_\_\_\_\_: मानव  
वर्ग \_\_\_\_\_: मेष  
युँजा \_\_\_\_\_: अन्त्य  
हंसक \_\_\_\_\_: वायु  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: सी-सीमा  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: लौह - ताम्र  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: कर्क

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1900	आषाढ़	4
पंजाबी	संवत : 2035	आषाढ़	11
बंगाली	सन् : 1385	आषाढ़	10
तमिल	संवत : 2035	आनी	11
केरल	कोल्लम : 1153	मिथुनम	11
नेपाली	संवत : 2035	आषाढ़	11
चैत्रादि	संवत : 2035	आषाढ़	कृष्ण 5
कार्तिकादि	संवत : 2035	ज्येष्ठ	कृष्ण 5

### पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 5  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 08:51:47  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 6  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : शतभिषा  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 26:28:19 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : शतभिषा  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : प्रीति  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 20:30:58 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : प्रीति  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : तैतिल  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 08:51:47 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : गर  
भयात \_\_\_\_\_ : 31:17:15  
भभोग \_\_\_\_\_ : 56:38:02  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : राहु 7 वर्ष 11 मा 26 दि

### घात चक्र


मास \_\_\_\_\_ : चैत्र  
तिथि \_\_\_\_\_ : 3-8-13  
दिन \_\_\_\_\_ : गुरुवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : आर्द्रा  
योग \_\_\_\_\_ : गण्ड  
करण \_\_\_\_\_ : किंस्तुघ्न  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 3  
वर्ग \_\_\_\_\_ : श्वान  
लग्न \_\_\_\_\_ : मिथुन  
सूर्य \_\_\_\_\_ : वृष  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : मिथुन  
मंगल \_\_\_\_\_ : मिथुन  
बुध \_\_\_\_\_ : वृष  
गुरु \_\_\_\_\_ : कर्क  
शुक्र \_\_\_\_\_ : सिंह  
शनि \_\_\_\_\_ : मेष  
राहु \_\_\_\_\_ : कन्या

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



# लग्न कुण्डली और दशा

## लग्न कुण्डली

के		गु सू बु
चं		शु
		श मं
	ल	रा

## लग्न कुण्डली

गु बु	के	चं
सू		
शु		
मं श	रा	ल

विंशोत्तरी  
राहु 7वर्ष 11मा 26दि

राहु

25/06/1978

21/06/2088

राहु	21/06/1986
गुरु	21/06/2002
शनि	21/06/2021
बुध	21/06/2038
केतु	21/06/2045
शुक्र	21/06/2065
सूर्य	22/06/2071
चन्द्र	21/06/2081
मंगल	21/06/2088

योगिनी

धान्या 1वर्ष 3मा 29दि

उल्का

24/10/2024

24/10/2030

उल्का	24/10/2025
सिद्धा	24/12/2026
संकटा	24/04/2028
मंगला	24/06/2028
पिंगला	24/10/2028
धान्या	24/04/2029
भ्रामरी	24/12/2029
भद्रिका	24/10/2030


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व अ राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद नं.	रा न	न अं.	स्थिति
लग्न	वृश्चि	11:15:55	310:10:09	अनुराधा	3 17	मंगल	शनि	चंद्र ---
सूर्य	मिथु	09:58:02	00:57:13	आर्द्रा	1 6	बुध	राहु	गुरु सम राशि
चंद्र	कुंभ	14:04:55	14:06:14	शतभिषा	3 24	शनि	राहु	बुध सम राशि
मंगल	सिंह	12:45:22	00:33:56	मघा	4 10	सूर्य	केतु	बुध मित्र राशि
बुध	मिथु	22:40:17	01:58:09	पुनर्वसु	1 7	बुध	गुरु	शनि स्वरशि
गुरु	मिथु	20:53:53	00:13:24	पुनर्वसु	1 7	बुध	गुरु	गुरु शत्रु राशि
शुक्र	कर्क	17:13:20	01:10:02	आश्लेषा	1 9	चंद्र	बुध	बुध शत्रु राशि
शनि	सिंह	03:08:15	00:05:32	मघा	1 10	सूर्य	केतु	सूर्य शत्रु राशि
राहु	व कन्या	07:27:24	00:01:57	उ०फाल्गुनी	4 12	बुध	सूर्य	केतु मूलत्रिकोण
केतु	व मीन	07:27:24	00:01:57	उ०भाद्रपद	2 26	गुरु	शनि	केतु मूलत्रिकोण
हर्ष	व तुला	19:02:32	00:01:17	स्वाति	4 15	शुक्र	राहु	चंद्र ---
नेप	व वृश्चि	22:55:45	00:01:32	ज्येष्ठा	2 18	मंगल	बुध	चंद्र ---
प्लूटो	व कन्या	20:20:31	00:00:02	हस्त	4 13	बुध	चंद्र	केतु ---
दशम भाव	व सिंह	19:29:30	--	पू०फाल्गुनी	-- 11	सूर्य	शुक्र	राहु --


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:33:24


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	तुला 27:38:11	वृश्चिक 11:15:55
2	वृश्चिक 27:38:11	धनु 14:00:27
3	मकर 00:22:43	मकर 16:44:58
4	कुम्भ 03:07:14	कुम्भ 19:29:30
5	मीन 03:07:14	मीन 16:44:58
6	मेष 00:22:43	मेष 14:00:27
7	मेष 27:38:11	वृष 11:15:55
8	वृष 27:38:11	मिथुन 14:00:27
9	कर्क 00:22:43	कर्क 16:44:58
10	सिंह 03:07:14	सिंह 19:29:30
11	कन्या 03:07:14	कन्या 16:44:58
12	तुला 00:22:43	तुला 14:00:27


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	वृश्चिक	11:15:55
2	धनु	11:45:16
3	मकर	15:09:02
4	कुम्भ	19:29:30
5	मीन	20:59:02
6	मेष	17:50:56
7	वृष	11:15:55
8	मिथुन	11:45:16
9	कर्क	15:09:02
10	सिंह	19:29:30
11	कन्या	20:59:02
12	तुला	17:50:56


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा
आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा
स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली



## विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : राहु 7 वर्ष 11 मास 26 दिन

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
25/06/1978	21/06/1986	21/06/2002	21/06/2021	21/06/2038
21/06/1986	21/06/2002	21/06/2021	21/06/2038	21/06/2045
00/00/0000	गुरु 08/08/1988	शनि 24/06/2005	बुध 18/11/2023	केतु 17/11/2038
00/00/0000	शनि 20/02/1991	बुध 03/03/2008	केतु 14/11/2024	शुक्र 18/01/2040
25/06/1978	बुध 28/05/1993	केतु 12/04/2009	शुक्र 15/09/2027	सूर्य 24/05/2040
बुध 21/12/1978	केतु 04/05/1994	शुक्र 12/06/2012	सूर्य 21/07/2028	चंद्र 23/12/2040
केतु 08/01/1980	शुक्र 02/01/1997	सूर्य 25/05/2013	चंद्र 21/12/2029	मंगल 22/05/2041
शुक्र 08/01/1983	सूर्य 21/10/1997	चंद्र 24/12/2014	मंगल 18/12/2030	राहु 09/06/2042
सूर्य 03/12/1983	चंद्र 20/02/1999	मंगल 02/02/2016	राहु 06/07/2033	गुरु 16/05/2043
चंद्र 03/06/1985	मंगल 27/01/2000	राहु 09/12/2018	गुरु 12/10/2035	शनि 24/06/2044
मंगल 21/06/1986	राहु 21/06/2002	गुरु 21/06/2021	शनि 21/06/2038	बुध 21/06/2045

शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष
21/06/2045	21/06/2065	22/06/2071	21/06/2081	21/06/2088
21/06/2065	22/06/2071	21/06/2081	21/06/2088	00/00/0000
शुक्र 21/10/2048	सूर्य 09/10/2065	चंद्र 21/04/2072	मंगल 17/11/2081	राहु 04/03/2091
सूर्य 21/10/2049	चंद्र 09/04/2066	मंगल 20/11/2072	राहु 06/12/2082	गुरु 28/07/2093
चंद्र 22/06/2051	मंगल 15/08/2066	राहु 22/05/2074	गुरु 12/11/2083	शनि 03/06/2096
मंगल 21/08/2052	राहु 10/07/2067	गुरु 21/09/2075	शनि 20/12/2084	बुध 25/06/2098
राहु 21/08/2055	गुरु 27/04/2068	शनि 21/04/2077	बुध 18/12/2085	00/00/0000
गुरु 21/04/2058	शनि 09/04/2069	बुध 21/09/2078	केतु 16/05/2086	00/00/0000
शनि 21/06/2061	बुध 13/02/2070	केतु 22/04/2079	शुक्र 16/07/2087	00/00/0000
बुध 21/04/2064	केतु 21/06/2070	शुक्र 20/12/2080	सूर्य 21/11/2087	00/00/0000
केतु 21/06/2065	शुक्र 22/06/2071	सूर्य 21/06/2081	चंद्र 21/06/2088	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल राहु 8 वर्ष 0 मा 20 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>बुध - शुक्र</b> 14/11/2024 15/09/2027	<b>बुध - सूर्य</b> 15/09/2027 21/07/2028	<b>बुध - चंद्र</b> 21/07/2028 21/12/2029	<b>बुध - मंगल</b> 21/12/2029 18/12/2030	<b>बुध - राहु</b> 18/12/2030 06/07/2033
शुक्र 05/05/2025 सूर्य 26/06/2025 चंद्र 20/09/2025 मंगल 20/11/2025 राहु 24/04/2026 गुरु 09/09/2026 शनि 20/02/2027 बुध 16/07/2027 केतु 15/09/2027	सूर्य 30/09/2027 चंद्र 26/10/2027 मंगल 13/11/2027 राहु 30/12/2027 गुरु 09/02/2028 शनि 29/03/2028 बुध 12/05/2028 केतु 30/05/2028 शुक्र 21/07/2028	चंद्र 02/09/2028 मंगल 03/10/2028 राहु 19/12/2028 गुरु 26/02/2029 शनि 19/05/2029 बुध 31/07/2029 केतु 31/08/2029 शुक्र 25/11/2029 सूर्य 21/12/2029	मंगल 11/01/2030 राहु 06/03/2030 गुरु 23/04/2030 शनि 20/06/2030 बुध 10/08/2030 केतु 31/08/2030 शुक्र 31/10/2030 सूर्य 18/11/2030 चंद्र 18/12/2030	राहु 07/05/2031 गुरु 08/09/2031 शनि 02/02/2032 बुध 13/06/2032 केतु 07/08/2032 शुक्र 09/01/2033 सूर्य 24/02/2033 चंद्र 13/05/2033 मंगल 06/07/2033
<b>बुध - गुरु</b> 06/07/2033 12/10/2035	<b>बुध - शनि</b> 12/10/2035 21/06/2038	<b>केतु - केतु</b> 21/06/2038 17/11/2038	<b>केतु - शुक्र</b> 17/11/2038 18/01/2040	<b>केतु - सूर्य</b> 18/01/2040 24/05/2040
गुरु 25/10/2033 शनि 05/03/2034 बुध 30/06/2034 केतु 17/08/2034 शुक्र 02/01/2035 सूर्य 13/02/2035 चंद्र 23/04/2035 मंगल 10/06/2035 राहु 12/10/2035	शनि 16/03/2036 बुध 02/08/2036 केतु 28/09/2036 शुक्र 11/03/2037 सूर्य 29/04/2037 चंद्र 20/07/2037 मंगल 16/09/2037 राहु 10/02/2038 गुरु 21/06/2038	केतु 30/06/2038 शुक्र 25/07/2038 सूर्य 01/08/2038 चंद्र 14/08/2038 मंगल 22/08/2038 राहु 14/09/2038 गुरु 04/10/2038 शनि 27/10/2038 बुध 17/11/2038	शुक्र 27/01/2039 सूर्य 18/02/2039 चंद्र 25/03/2039 मंगल 19/04/2039 राहु 22/06/2039 गुरु 18/08/2039 शनि 24/10/2039 बुध 24/12/2039 केतु 18/01/2040	सूर्य 24/01/2040 चंद्र 04/02/2040 मंगल 11/02/2040 राहु 01/03/2040 गुरु 18/03/2040 शनि 08/04/2040 बुध 26/04/2040 केतु 03/05/2040 शुक्र 24/05/2040
<b>केतु - चंद्र</b> 24/05/2040 23/12/2040	<b>केतु - मंगल</b> 23/12/2040 22/05/2041	<b>केतु - राहु</b> 22/05/2041 09/06/2042	<b>केतु - गुरु</b> 09/06/2042 16/05/2043	<b>केतु - शनि</b> 16/05/2043 24/06/2044
चंद्र 11/06/2040 मंगल 24/06/2040 राहु 26/07/2040 गुरु 23/08/2040 शनि 26/09/2040 बुध 26/10/2040 केतु 07/11/2040 शुक्र 13/12/2040 सूर्य 23/12/2040	मंगल 01/01/2041 राहु 24/01/2041 गुरु 12/02/2041 शनि 08/03/2041 बुध 29/03/2041 केतु 07/04/2041 शुक्र 02/05/2041 सूर्य 09/05/2041 चंद्र 22/05/2041	राहु 18/07/2041 गुरु 07/09/2041 शनि 07/11/2041 बुध 31/12/2041 केतु 23/01/2042 शुक्र 28/03/2042 सूर्य 16/04/2042 चंद्र 18/05/2042 मंगल 09/06/2042	गुरु 25/07/2042 शनि 17/09/2042 बुध 04/11/2042 केतु 24/11/2042 शुक्र 20/01/2043 सूर्य 06/02/2043 चंद्र 06/03/2043 मंगल 26/03/2043 राहु 16/05/2043	शनि 19/07/2043 बुध 14/09/2043 केतु 08/10/2043 शुक्र 15/12/2043 सूर्य 04/01/2044 चंद्र 07/02/2044 मंगल 01/03/2044 राहु 01/05/2044 गुरु 24/06/2044

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	7
भाग्यांक	2
मित्र अंक	2, 3, 6, 7
शत्रु अंक	4, 5, 8
शुभ वर्ष	25,34,43,52,61
शुभ दिन	रवि, सोम, मंगल
शुभ ग्रह	सूर्य, चन्द्र, मंगल
मित्र राशि	वृष, तुला
मित्र लग्न	कुम्भ, कर्क, कन्या
अनुकूल देवता	कुबेर
शुभ रत्न	मूंगा
शुभ उपरत्न	संगमूंगी
भाग्य रत्न	मोती
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	रक्त
शुभ दिशा	दक्षिण
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	केसर, कस्तूरी, रक्तचन्दन
दान अन्न	मल्का
दान द्रव्य	घी

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मोती	चंद्र	81%	सुख, भाग्योदय
मूंगा	मंगल	80%	व्यावसायिक उन्नति, शत्रु व रोग मुक्ति, स्वास्थ्य
नीलम	शनि	66%	व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम, सुख
पुखराज	गुरु	61%	दुर्घटना से बचाव, धन, सन्तति सुख
लहसुनिया	केतु	52%	सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
माणिक्य	सूर्य	47%	दुर्घटना, व्यावसायिक हानि
गोमेद	राहु	35%	हानि, दुर्घटना
हीरा	शुक्र	22%	नेष्ट भाग्य, दाम्पत्य कष्ट, व्यय
पन्ना	बुध	0%	दुर्घटना, हानि



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
राहु	21/06/1986	22%	69%	67%	0%	61%	34%	72%	55%	29%
गुरु	21/06/2002	55%	88%	86%	0%	73%	0%	66%	35%	52%
शनि	21/06/2021	22%	69%	67%	0%	61%	34%	78%	47%	29%
बुध	21/06/2038	55%	69%	80%	0%	61%	34%	66%	35%	52%
केतु	21/06/2045	22%	69%	86%	0%	61%	34%	53%	10%	64%
शुक्र	21/06/2065	22%	69%	80%	0%	61%	47%	72%	47%	58%
सूर्य	22/06/2071	61%	88%	86%	0%	67%	0%	53%	10%	29%
चंद्र	21/06/2081	55%	94%	80%	0%	61%	22%	66%	10%	29%
मंगल	21/06/2088	55%	88%	92%	0%	67%	22%	66%	10%	58%

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	04/11/1979-15/03/1980 27/07/1980-06/10/1982 -----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	21/03/1990-20/06/1990 15/12/1990-05/03/1993 15/10/1993-10/11/1993
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	05/03/1993-15/10/1993 10/11/1993-02/06/1995 10/08/1995-16/02/1996
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	02/06/1995-10/08/1995 16/02/1996-17/04/1998 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	07/06/2000-23/07/2002 08/01/2003-07/04/2003 -----

### द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012 -----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	24/01/2020-29/04/2022 12/07/2022-17/01/2023 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	08/08/2029-05/10/2029 17/04/2030-31/05/2032 -----

### तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	06/03/2049-10/07/2049 04/12/2049-25/02/2052 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	27/05/2059-11/07/2061 13/02/2062-07/03/2062 -----

### शनि का ढैया फल

#### ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	क्षेत्र
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	धनार्जन
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	शुभ	पराक्रम
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	सुख
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	शुभ	सन्तति
		दम्पति

#### फल

शुभ

#### क्षेत्र

धनार्जन
पराक्रम
सुख
सन्तति
दम्पति

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपके जन्म समय में मंगल चन्द्रकुंडली में सप्तम भाव में स्थित है। अतः आप एक मांगलिक कन्या है। चूंकि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष भंग नहीं हो रहा है अतएव इसके प्रभाव से आपके पति का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा स्वभाव में भी उग्रता का भाव रहेगा जिससे यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न होंगे लेकिन ये अल्पकालिक रहेंगे तथा दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पित या गर्मी आदि से यदा कदा परेशानी की अनुभूति कर सकती हैं। मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में न्यूनाधिक विलम्ब होने की संभावना रहेगी तथा विवाह पूर्व किसी वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है लेकिन अन्ततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी तथा दाम्पत्य जीवन सामान्यतया संतोषप्रद रहेगा।

सप्तम भावस्थ मंगल के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। यदा कदा मानसिक परेशानी भी हो सकती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से आप अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम तथा पराक्रम से सफलता अर्जित करेंगी। समाज से भी आपको न्यूनाधिक मात्रा में मान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। लग्न पर दृष्टि के प्रभाव से स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा जिससे यदा कदा क्रोध के भाव की प्रबलता दृष्टि गोचर होगी। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति एवं समृद्धि मध्यम रहेगी। यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे परिवार की शान्ति भी प्रभावित होगी परन्तु इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में नहीं होगा।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक खुशहाल एवं सुखी बनाने के लिए आपको किसी ऐसे मांगलिक पुरुष से विवाह करना चाहिए जिसके द्वारा आपका मंगली दोष भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार दोष के भंग होने

पर आपके अशुभ फलों में न्यूनता आएगी तथा सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। साथ ही परस्पर संबंधों में भी मधुरता रहेगी।



## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

### काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में विषधर नामक कालसर्प योग विद्यमान है। लेकिन यह केवल आंशिक रूप में विद्यमान है। फलस्वरूप जातक को ज्ञानार्जन करने में आंशिक व्यवधान उपस्थित होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ी बहुत बाधा आती है एवं स्मरण शक्ति का प्रायः ह्रास होता है। जातक को नाना-नानी, दादा-दादी से लाभ की सम्भावना होते हुए भी आंशिक नुकसान उठाना पड़ता है। चाचा, चचेरे भाईयों से कभी-कभी मतान्तर या झगड़ा झंझट हो जाता है। बड़े भाई से भी किसी समय थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है।

इस योग के कारण जातक अपने स्थान से बहुत दूर निवास करता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है पर कालान्तर में जातक के जीवन में स्थायित्व भी आता है। लाभ मार्ग में थोड़ा बहुत व्यवधान उपस्थित हो जाता है। व्यक्ति किसी समय चिन्तातुर हो जाता है। धन सम्पत्ति को लेकर कभी बदनामी की स्थिति भी पैदा हो जाती है या थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। सर्वत्र लाभ दिखालाई देता है पर कांच में दिखाई देने वाले रुपयों की तरह हस्तगत नहीं होता। सन्तान पक्ष से थोड़ा बहुत परेशानी घेरे रहती है तथा जातक को अपने शरीर में भी रोग व्याधि लग जाती है और उससे कष्ट उठाना पड़ता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है तथा जीवन का अन्त प्रायः रहस्यमय ढंग से होता है।


यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें। अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. 'ॐ नमः शिवाय' का प्रतिदिन 108 बार जप करें। कुल जप संख्या- 21000।
3. ताम्बे के लोटे में नाग के जोड़े बहते पानी में एक बार प्रवाहित करें।
4. नवनाग स्तोत्र का एक वर्ष तक प्रतिदिन पाठ करें।
5. राहु के महादशा, अन्तर्दशा आने पर राहु मन्त्र के जाप कम से कम प्रतिदिन 108 बार करें। जप संख्या अट्ठारह हजार (18000) है।
6. शुभ मुहूर्त में अभिमन्त्रित गोमेद धारण करें।
7. श्रावणमास में 30 दिन तक महादेव का अभिषेक करें।
8. सरस्वती जी की एक वर्ष विधिवत उपासना करें।
9. राहु कवच एवं स्तोत्र का पाठ करें।
10. प्रत्येक सोमवार को दही से भगवान शंकर पर - ॐ हर हर महादेव कहते हुए अभिषेक करें। यह केवल 16 सोमवार तक करें।
11. रसोईघर में बैठकर भोजन करें।

12. शुभ मुहूर्त में बहते पानी में कोयला तीन बार प्रवाहित करें।
13. गोमेद, सुवर्ण, तिल, सरसों, नीलवस्त्र, खड्ग, कम्बल, आदि समय-समय पर दान करें।
14. शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर चाँदी का स्वस्तिक एवं दोनो ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दें।
15. हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें।

#### विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

- नवम् भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में चन्द्र के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें। दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें। ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान करें।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

## नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



## ग्रह फल

### सूर्य

अष्टमभाव में सूर्य हो तो जातक धैर्यहीन, निबुद्धि, सुखी, धनी, क्रोधी, चिन्तायुक्त एवं पित्तरोगी होता है।

मिथुन राशि में रवि हो तो जातक धनवान्, ज्योतिषी, इतिहास प्रेमी उदार, विवेकी, विद्वान्, बुद्धिमान, मधुरभाषी, नम्र एवं प्रेमी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य अष्टम भाव में विद्यमान है अतः पिता का आपके प्रति स्नेह का भाव रहेगा। उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तथापि यदा कदा शारीरिक रूप से वे व्याकुलता की अनुभूति करते रहेंगे। धन सम्पत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी पूर्ण सहायता करते रहेंगे। पिता से आप यदा कदा विशेष धन या सम्पत्ति भी अर्जित कर सकेंगी। साथ ही व्यापार आदि कार्यों एवं यात्रा आदि में भी वे आपका सहयोग करेंगे तथा वांछित निर्देश भी देंगे।

आप भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी आज्ञा पालन करने तथा सेवा करने के लिए नित्य तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के उत्पन्न होने के कारण संबंधों में कटुता आएगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जीवन में हमेशा उनकी सेवा तथा सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगी।

### चन्द्र

चतुर्थभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुखी, मानी, दानी, उदार, रोगरहित, राजद्वेषवर्जित, कृषक, विवाह के पश्चात् भाग्योदयी, जलजीवी एवं बुद्धिमान होता है।

कुम्भ राशि में चन्द्रमा हो तो जातक, उन्मत्त, सूक्ष्मदेही, शिल्पी, नीति दक्ष, दूरदर्शी, विद्वान्, गुप्तविद्याओं में रुचि, अच्छा अन्तर्ज्ञान, साधना करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला एवं मध्यावस्था में संन्यास के प्रति झुकाव होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में स्थित हैं। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं किसी भी प्रकार से शारीरिक व्याकुलता की उनको अनुभूति नहीं होगी। आपके प्रति उनके मन में विशेष स्नेह का भाव रहेगा। आपके परस्पर मधुर संबंध रहेंगे एवं मतभेदों का प्रायः अभाव ही रहेगा। विभिन्न प्रकार की धन सम्पत्ति तथा वाहनादि सुख से वे युक्त रहेंगी तथा आपकी सुख समृद्धि एवं सुखसंसाधनों की प्राप्ति के लिए नित्य आपका आर्थिक तथा अन्य तरफ से सहयोग करती रहेंगी।

आप की भी उनके प्रति असीम निष्ठा एवं आदर का भाव रहेगा। साथ ही जीवन में उनको सर्वप्रकार से सुख प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी। एवं उनकी आज्ञा का पालन भी

नित्य करती रहेंगी। इस प्रकार आप माता के लिए शुभ ही रहेंगी।

### मंगल

दसवें भाव में मंगल हो तो जातक कुलदीपक, स्वाभिमानी, सन्तति कष्टवाला, धनवान्, सुखी, उत्तम-वाहनों से सुखी एवं यशस्वी होता है।

सिंह राशि में मंगल हो तो जातक शूरवीर, सदाचारी, कार्यनिपुण, स्नेहशील, परोपकारी, ज्योतिषी, गणितज्ञ, माता-पिता का आज्ञाकारी, गुरुजनों का आदर करने वाला, उदार एवं सफल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति दशम भाव में है अतः आपके भाई बहिनों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा उनमें शारीरिक दुर्बलता भी परिलक्षित होगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह तथा सम्मान का भाव रहेगा एवं धन सम्पत्ति से भी वे युक्त रहेंगे एवं जीवन के समस्त महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि में आपको अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त सुख दुःख में भी वे आपके साथ रहेंगे। तथा नौकरी या व्यापारादि में आपका सहयोग करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति स्नेह का भाव रहेगा एवं आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी। लेकिन कभी कभी आपसी मतभेदों के कारण इसमें कटुता भी आएगी लेकिन यह अल्प समय तक रहेगी। साथ ही आप उनकी आजीविका संबंधी कार्यों में यथाशक्ति आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करती रहेंगी।

### बुध

अष्टमभाव में बुध हो तो जातक दीर्घायु, अभिमानी, राजमान्य, कृषक, लब्धप्रतिष्ठ, मानसिक दुखी, कवि, वक्ता, न्यायाधीश, मनस्वी, धनवान् एवं धर्मात्मा होता है।

मिथुन राशि में बुध हो तो जातक मधुरभाषी, शास्त्रज्ञ, लब्धप्रतिष्ठ, वक्ता, लेखक, अल्पसन्ततिवाला, विवेकी, सदाचारी, खोज के काम में चतुर, दीर्घायु, यात्रा का शौकीन, संगीत में रुचि एवं हास परिहास करने वाला होता है।

### गुरु

अष्टमभाव में गुरु हो तो जातक दीर्घायु, नम्रव्यवहार, लेखक, सुखी, शान्त, मधुरभाषी, विवेकी, ग्रन्थकार, कुलदीपक, ज्योतिषप्रेमी, मित्रों द्वारा धननाशक, गुप्तरोगी एवं लोभी होता है।

मिथुन राशि में गुरु हो तो जातक योग्य वक्ता, सुगठित शरीर, लम्बाकद, उदार, विद्वान, कई भाषाओं का जानने वाला, अनायास धनप्राप्त करने वाला, लोकमान्य, लेखक एवं व्यवहार कुशल होता है।

## शुक्र

नवम भाव में शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजप्रिय, पवित्रतीर्थ यात्राओं का कर्ता, दयालु, प्रेमी, गृहसुखी, गुणी, चतुर एवं आस्तिक होता है।

कर्क राशि में शुक्र हो तो जातक धार्मिक, ज्ञाता, सुन्दर, सुख और धन का इच्छुक, नीतिज्ञ, आवेशपूर्ण, डरपोक, दुःखी एवं प्रचुर सन्तान होता है।

## शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान्, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्पयोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

सिंह राशि में शनि हो तो जातक लेखक, अध्यापक, कार्यदक्ष, हठी, कमसन्तान, अभागा एवं ईर्ष्यालु स्वभाव वाला होता है।

## राहु

ग्यारहवें भाव में राहु हो तो जातक परिश्रमी, अल्पसन्तान, विदेशियों से धनलाभ, दीर्घायु, मन्दमति, लाभहीन, अरिष्टनाशक, व्यवसाययुक्त, कदाचित् लाभदायक एवं कार्य सफल करने वाला होता है।

कन्या राशि में राहु हो तो जातक लोकप्रिय, मधुरभाषी, कविलेखक, गवैया एवं धनी होता है।

## केतु

पंचम भाव में केतु हो तो जातक वातरोगी, कुचाली, कुबुद्धि, सन्तान को नष्ट करता है, योगी, कुशाग्रबुद्धि एवं क्रोधी होता है।

मीन राशि में केतु हो तो जातक परिश्रमी, धार्मिक प्रवृत्तिवाला, कर्णरोगी, प्रवासी, चंचल और कार्यपरायण होता है।

## दशा विश्लेषण

**महादशा :- बुध  
( 21/06/2021 - 21/06/2038 )**

बुध की महादशा 21/06/2021 को आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 21/06/2038 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध अष्टम भाव में स्थित है। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। इसके पूर्व आपकी 19 वर्ष की शनि दशा चल रही थी। इस दशा में शनि आपकी छोटी यात्रा तथा जमीन-जायदाद में वृद्धि हुई होगी, संबंधियों से सहायता तथा जमीन तथा सम्पत्ति की प्राप्ति हुई होगी। बुध की वर्तमान दशा में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शिक्षा उत्तम होगी और जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी।

**स्वास्थ्य :**

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप स्फूर्तिवान और शक्तिशाली रहेंगे। आपको ज्वर, संक्रामक बीमारी, चर्मरोग, फ्लू, बदहजमी, पेट दर्द आदि कुछ मौसमी बीमारियाँ हो सकती हैं। इन मामूली बीमारियों को छोड़ आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

**अर्थ और व्यवसाय :**

आपको सम्पत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपको अवकाश ग्रहण से लाभ, बोनस और ग्रेय्यूइटी मिल सकती है। सद्दा लाभदायक होगा। अचानक लाभ भी हो सकता है। कुल मिलाकर अर्थ की दृष्टि से यह दशा आपके लिए उत्तम होगी क्योंकि इसमें आपका धन-संग्रह होगा। जीवन-वृत्ति और व्यवसाय के लिए लेखा, पत्रकारिता, शिक्षण तथा सभी बौद्धिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़ा, रत्न, पुस्तक, लेखा-सामग्री, कम्प्यूटर तथा हस्तनिर्मित वस्तुओं का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोग अच्छा करेंगे, उन्हें सफलता उच्च पद और अधिकार मिलेगा। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को सम्पत्ति की प्राप्ति, आय में वृद्धि तथा लाभ होगा। आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक तथा व्यावसायिक उपलब्धि के लिए यह दशा बहुत उत्तम है।

**वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :**

शनि की अन्तर्दशा में आपको जीवन का हर सुख प्राप्त होगा। आपको जमीन तथा अचल सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। आपका पैतृक या विरासती सम्पत्ति मिल सकती है। आपको वाहन की प्राप्ति भी होगी। शनि की अन्तर्दशा में आपकी छोटी यात्रा और शुक्र की अन्तर्दशा में दूर की यात्रा होगी। तीर्थान पर जा सकते हैं।

**शिक्षा :**

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आपकी अनुसन्धान परियोजना में रुचि हो सकती है। आप सभी परीक्षाओं तथा प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा करेंगे। आप विज्ञान, गणित तथा वाणिज्य में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। लेखा, वाणिज्य, साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान, रचनात्मक पत्रकारिता, समाचार माध्यम, जनसंचार आदि विषयों में आपकी रुचि होगी। आप

प्रतिभावान, कूटनीतिक और बहुमुखी हैं तथा विभिन्न विषयों में आपकी रुचि है। आपका दिमाग विवेकपूर्ण और विश्लेषणात्मक है और सभी बौद्धिक कार्यों में अच्छा करेंगे।

परिवार :

आपका परिवार के सभी सदस्यों के साथ सम्बन्ध अच्छा रहेगा। आपको बच्चों से सुख तथा आनन्द मिलेगा। आपके जीवन साथी को लाभ, पारिवारिक सुख तथा अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपका आपके जीवन साथी के साथ सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपकी माता को सट्टे में लाभ और सुख मिलेगा जबकि आपके पिता का शुभ कार्यों में व्यय होगा, उनकी यात्रा होगी और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति झुकाव होगा। आपके छोटे भाई-बहनों को विरोधियों पर विजय मिलेगी और कार्य-स्थान में स्थिति अनुकूल होगी जबकि बड़े भाई-बहनों को जीविकोपार्जन में सफलता, यश और ख्याति मिलेगी।

अन्तर्दशा :

बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपका धन संग्रह होगा तथा जमीन-जायदाद और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि में वृद्धि होगी। केतु के फलस्वरूप कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुक की अन्तर्दशा में यात्रा तथा साझेदारों से लाभ मिलेगा। सूर्य की अन्तर्दशा में जीविकोपार्जन में प्रगति होगी जबकि चन्द्र की अन्तर्दशा में सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी। मंगल की अन्तर्दशा के फलस्वरूप यश, ख्याति और शत्रुओं पर विजय मिलेगी तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा जबकि राहु कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। गुरु की अन्तर्दशा में सम्पत्ति तथा बच्चों से सुख की प्राप्ति होगी। शनि की अन्तर्दशा के फलस्वरूप छोटी यात्रा होगी और सुख तथा जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी।

**अंतर्दशा :- बुध - शुक्र  
( 14/11/2024 - 15/09/2027 )**

आपके लिए बुध की महादशा 21/06/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 10 मास होगी। आपके लिए यह 14/11/2024 को प्रारंभ होकर 15/09/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, शांति और समृद्धि का कारक है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहेंगे। सब सुख-साधन और सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जीवनसाथी और संतान से सुख मिलेगा। लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं। पिता से संबंध उत्तम रहेंगे। कला में रुचि होगी। इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्वयं के प्रयास से सफलता मिलेगी। जनसंपर्क, मार्केटिंग और लघु यात्राओं के लिए समय शुभ है।

आपके जीवनसाथी को लघु यात्राओं से लाभ होगा। आपके पिता प्रसिद्ध होंगे। माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके भाई-बहनों के लिए साझेदारी से लाभ, सफलता, आकांक्षाओं की पूर्ति और उत्तम शिक्षा का संकेत है।

आपकी संतान भाग्यशाली रहेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो उच्चपद और सम्मान प्राप्त करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यवान रहेंगे; पहले किये निवेश से लाभ होगा। परामर्शदाताओं की यात्राएं होंगी, खर्चे बढ़ेंगे। व्यापारियों को मार्केटिंग में सुधार से लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए कन्याओं को खीर खिलाएं।

**अंतर्दशा :- बुध - सूर्य  
( 15/09/2027 - 21/07/2028 )**

आपके लिए बुध की महादशा 21/06/2021 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चौथी अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 15/09/2027 को प्रारंभ होकर 21/07/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। विरासत या साझेदार के माध्यम से धनागम हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे, मगर कुछ उतार-चढ़ाव आएंगे। पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवारजनों और मित्रों से संबंध मधुर रहेंगे। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। सरकार के माध्यम से धन कमा सकते हैं।

आपके जीवनसाथी का पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, खुशियां मिलेंगी। आपके पिता के खर्चे बढ़ेंगे, मगर शुभ कार्यों पर। माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सुख-साधन रहेंगे, उच्च पद मिल सकता है। आपके भाई-बहनों को धन, उच्च पद मिलेंगे, प्रशासनिक क्षमता उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, कार्यक्षेत्र में सफल होंगे और स्पर्धियों पर विजयी रहेंगे।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी, उनके बहुत से मित्र होंगे और घरेलू जीवन सुखी रहेगा। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति, वाहन, कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत है।

अगर आप सेवारत हैं तो परिश्रम और उत्साह से काम करेंगे। परामर्शदाताओं की आय में वृद्धि होगी, जबकि व्यापारियों को विभिन्न माध्यमों से लाभ होगा।

आपको स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना श्रेयस्कर होगा। पाचनतंत्र और नेत्र की बीमारियों से बचाव करें, चोट आदि से बचें। अरिष्ट से बचाव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

### **अंतर्दशा :- बुध - चन्द्र ( 21/07/2028 - 21/12/2029 )**

आपकी बुध की महादशा 21/06/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष 5 मास होगी। आपके लिए यह 21/07/2028 को प्रारंभ होकर 21/12/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, सरकारी कृपा और चेहरे की चमक का कारक है।

इस अवधि में आप प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है या संपत्ति क्रय कर सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सब सुख-सुविधाएं, आराम उपलब्ध रहेंगे। खेती से अच्छी आमदनी हो सकती है। वाहनसुख रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होंगी। सत्कार्य करेंगे जिनसे समाज को लाभ होगा।

आपके जीवनसाथी को सफलता, प्रसिद्धि और धन प्राप्त होंगे। आपके पिता के जीवन में अचानक कुछ घट सकता है। माता को सुख, सुविधाएं और प्रसन्नता मिलेंगे।

आपके भाई-बहनों के लिए धन, सुविधाएं, शिक्षा, राजनीति में रुचि, कार्यों में सफलता, उत्तम स्वास्थ्य और स्पर्धियों पर विजय का संकेत है। आपकी संतान को शिक्षा में सफलता के लिए परिश्रम करना होगा। उनकी स्पर्धियों पर विजय होगी। अगर वे सेवारत हैं तो परिवर्तन, तबादला और अधिक खर्च हो सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो धन का लाभ होगा। सहकर्म सहायता करेंगे, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाताओं को साझेदारी से लाभ होगा। व्यापारी धन कमाएंगे और सफल रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अत्यधिक परिश्रम से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए चंद्रमा के मंत्र का जाप करें।

### **अंतर्दशा :- बुध - मंगल ( 21/12/2029 - 18/12/2030 )**

आपके लिए बुध की महादशा 21/06/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन रहेगी। यह 21/12/2029 को

प्रारंभ होकर 18/12/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आप प्रसिद्ध होंगे। कार्यक्षेत्र में, खास तौर पर तकनीकी विषयों में सफलता मिलेगी। उच्चपद पर आसीन हो सकते हैं। सत्कार्य करेंगे। अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा उत्तम होगी, जायदाद से आय में वृद्धि होगी, संतान से सुख मिलेगा। बाधाओं को पार करने के लिए आत्मविश्वास, इच्छाएं और प्रतिरोधक शक्ति मौजूद रहेंगे। वांछित कार्य पूर्ण होंगे और उत्साह उत्तम रहेगा। आपके जीवनसाथी की आय उत्तम होगी; जायदाद और वाहन का सुख मिलेगा। आपके पिता को धनलाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार में खुशियां और सब सुविधाएं होंगी। माता को निवेश से लाभ होगा, उत्साह उत्तम होगा।

आपके जीवनसाथी की आय उत्तम होगी; जायदाद और वाहन का सुख मिलेगा। आपके पिता को धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार में खुशियां और सब सुविधाएं होंगी। माता को निवेश से लाभ होगा, उत्साह उत्तम होगा।

आपके भाई-बहनों के लिए अचानक लाभ, वसीयत से लाभ, सेवानिवृत्ति से धनागम, उत्तम कार्यक्षमता, अनावश्यक खर्च और यात्रा का संकेत है।

आपकी संतान स्पर्धियों पर विजयी होगी, तकनीकी और बारीकी के कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो मातहतों का सहयोग मिलेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे, आय अच्छी होगी। परार्शदाता आत्मविश्वास के साथ प्रगति करेंगे। व्यापारियों को निवेश से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

### अंतर्दशा :- बुध - राहु ( 18/12/2030 - 06/07/2033 )

आपके लिए बुध की महादशा 21/06/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा राहु की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 6 मास 18 दिन रहेगी। आपके लिए यह 18/12/2030 को प्रारंभ होकर 06/07/2033 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक समृद्धि और अचानक, अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है।

इस अवधि में आपके धन में वृद्धि होगी। आर्थिक प्रगति के लिए बहुत से अवसर मिलेंगे। चाचा से संबंध उत्तम रहेंगे। व्यापार में विस्तार होगा, उत्तम लाभ होगा। कार्य पूर्ण होंगे, प्रसिद्धि मिलेगी। दूसरे लोगों से सहायता मिलती रहेगी। निवेश या सट्टेबाजी से लाभ हो सकता है। संतान का जन्म हो सकता है। शिक्षा में सफलता मिलेगी। धन का संचय होगा।

आपके जीवनसाथी धनी बनेंगे। आपके पिता को कार्यों में सफलता मिलेगी। माता को अचानक लाभ हो सकता है, अचानक कोई घटना घट सकती है, यात्रा संभव है। आपके

भाई-बहनों के लिए यात्रा, भौतिक सुख, उच्चपद, सौभाग्य, आत्म-विश्वास, आर्थिक उन्नति, दूसरों से सहायता का संकेत है।

आपकी संतान को सहकर्मियों से लाभ होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो यात्रा हो सकती है, व्यापार में विस्तार होगा, साझेदारी से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। परामर्शदाताओं को हर प्रकार से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए उड़द, सतनजा और तिल दान में दें।

